

लैटर्मोविर (LETERMOVIR)

- इसे प्रैविमिस® के नाम से भी जाना जाता है
- यह दवा खाने वाली गोली के रूप में उपलब्ध है।

यह दवा कैसी दिखती है?(What does the medication look like?)



यह दवा किस बीमारी के लिए है? (What is this medication for?)

यह एक एंटी वायरल दवा है। इस दवा का उपयोग कमजोर प्रतिरक्षा-प्रणाली वाले रोगियों (उदाहरण के लिए अंग के ट्रांसप्लांट के बाद) में उस समय किया जाता है, जब CMV (साइटोमैगालोवायरस) नामक वायरल संक्रमण की रोकथाम के लिए आम एंटीवायरल दवा वैल्वेन्सीक्लोविर काम न कर रही हो या व्यक्ति पर वैल्वेन्सीक्लोविर का दुष्प्रभाव हो रहा हो।

मुझे यह दवा कैसे लेनी चाहिए? (How should I take this medication?)

यह दवा दिन में एक बार लें (उदाहरण के लिए सुबह 9 बजे)	आपकी दवा का समय: _____
---	---------------------------

- दवा भोजन के साथ या बिना भोजन के ली जा सकती है।
- यह दवा दिन में किसी भी समय ली जा सकती है और अपनी किसी भी अन्य दवाओं के समय पर ले सकते हैं। अपने शरीर में स्थिर मात्रा (दवा का स्तर) बनाए रखने के लिए इसे रोज़ाना एक ही समय पर लें।
- यह अन्य दवाओं के साथ घुल-मिल सकती है। अपनी दवाओं (बिना पर्ची की दवाएं या हर्बल उत्पाद), इनमें अन्य स्वास्थ्य-प्रदाताओं द्वारा दी गई दवाएं शामिल हैं, के बारे में अपनी ट्रांसप्लांट टीम को बताएं।

छूटी हुई खुराक या उल्टी द्वारा निकली खुराक (Missed Dose or Vomited Dose):

यदि आपसे खुराक छूट गई है, जैसे ही आपको याद आए, अपनी दवा लें और फिर अपनी अगली खुराक नियमित तौर पर निर्धारित समय पर लें। यदि आपकी अगली खुराक लेने में बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो अपनी छूटी हुई खुराक न लें और अपने नियमित समय पर खुराक लेना जारी रखें। दोगुनी या अतिरिक्त खुराक न लें।

यदि खुराक लेने के 30 मिनट के भीतर आपको उल्टी हो जाती है या यदि आप देखते हैं कि कोई दवा बाहर निकली है, तो खुराक दोबारा लें। नहीं तो, बस अपने अगले निर्धारित समय पर खुराक लें।

इस दवा के कुछ संभावित दुष्प्रभाव क्या हैं? (What are some possible side effects of this medication?)

दुष्प्रभाव	प्रबंधन
सिरदर्द	ठीक हो सकता है; आपका डॉक्टर काउंटर से दर्द-निवारक दवा लेने का सुझाव दे सकता है।
दस्त, उल्टी, मतली	भोजन के साथ लें। यदि यह ठीक नहीं होते या परेशान करने वाले हैं, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
सूजन	ठीक हो सकती है; यदि यह ठीक नहीं होती या परेशान करने वाली है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें।